

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : मनीष कुमार तिवारी
पता : 415 बेलिलियोउस रोड 5ठ फ़्लोर फ़्लॉट 5डी हावरा, हावरा हावरा,
हावरा एच.ओ वॉस्ट बंगाल 711101 इंडिया
फ़ोन: 91-9831630210

स्थायी खाता संख्या : AGHPT7427K | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पावती सं. : 479454530271221 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A1/203430159

निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आपके केस में प्रतिदाय निर्धारित हुआ है

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|------------|
| * प्रतिदाय की राशि: | ₹ 1,530 | प्रतिदाय अनुक्रम सं.: | 9114686768 |
|---------------------|---------|-----------------------|------------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ITR फॉर्म का प्रकार ITR1 मूल | फाइलिंग की दिनांक 27/12/2021 | सूचना आदेश की दिनांक 27/12/2021 | नियत दिनांक 31/12/2021 |
| विस्तारित नियत दिनांक 31/12/2021 | स्थिति Individual | आवासीय स्थिति Resident | |

आयकर विवरणी का विवरण

| क्र.सं. | विवरण | रिपोर्टिंग शीर्ष | राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया | धारा 143(1) की गणना के अनुसार |
|---------|--------------------|--|--|----------------------------------|
| 01 | कराधान विकल्प | 115BAC का विकल्प चुना | No | No |
| 02 | आय का विवरण | कुल आय | 3,33,780 | 3,33,780 |
| 03 | कर का विवरण | राहत के बाद कर दायित्व | 0 | 0 |
| 04 | ब्याज और देय शुल्क | कुल ब्याज और शुल्क (234A, 234B, 234C और 234F) | 0 | 0 |
| 05 | पूर्व संदत्त कर | कुल भुगतान किया गया कर (अग्रिम कर, टी डी एस, टी सी एस, स्व निर्धारित कर) | 1,463 | 1,463 |
| 06 | प्रतिदाय का विवरण | प्रतिदाय राशि (244A के ब्याज सहित) | 1,460 | 1,530 |

* नोट: सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिदाय आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि ऐसा क्रेडिट आपके बैंक खाता के पूर्व-मान्य होने और आपके पैसों से लिंक होने पर आधारित है।

[Click here for English version](#)

एन साईराज
सहायक आयकर निदेशक, सी.पी.सी.
बेंगलुरु

धारा 143(1) के तहत सूचना

नाम : मनीष कुमार तिवारी

स्थायी खाता संख्या : AGHPT7427K

निर्धारण वर्ष : 2021-22

पावती सं. : 479454530271221

पत्र संदर्भ संख्या

: CPC/2122/A1/203430159

| क्र.सं. | विवरण | रिपोर्टिंग शीर्ष | राशि (₹ में) | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | करदाता द्वारा प्रदान किया गया | धारा 143(1) की गणना के अनुसार |
| 01 | वेतन | (i) सकल वेतन (ia+ib+ic) | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (a) धारा 17(1) के अनुसार वेतन | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (b) धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य | 0 | 0 |
| | | (c) धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ | 0 | 0 |
| | | (ii) कम : धारा 10 के तहत छूट की सीमा | 0 | 0 |
| | | (iii) कुल वेतन (i-ii) | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (iv) धारा 16 के तहत कटौती (iva + ivb + ivc) | 52,120 | 52,120 |
| | | (a) धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती | 50,000 | 50,000 |
| | | (b) धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता | 0 | 0 |
| | | (c) धारा 16(iii) के तहत व्यावसायिक कर | 2,120 | 2,120 |
| (v) 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (iii-iv) | 6,26,321 | 6,26,321 | | |
| 02 | गृह संपत्ति | गृह संपत्ति का प्रकार | स्व अधिग्रहित | स्व अधिग्रहित |
| | | (i) वर्ष के दौरान सकल किराया का प्राप्त/प्राप्य/देय मूल्य | 0 | 0 |
| | | (ii) स्थानीय प्राधिकरणों को भुगतान किया गया कर | 0 | 0 |
| | | (iii) वार्षिक मूल्य (i-ii) | 0 | 0 |
| | | (iv) वार्षिक मूल्य का 30% | 0 | 0 |
| | | (v) उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज | 1,83,820 | 1,83,820 |
| | | (vi) वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराया 30% कम | 0 | 0 |
| | | (vii) गृह संपत्ति के तहत प्रभार्य आय [(iii - iv - v) + vi] | -1,83,820 | -1,83,820 |
| 03 | अन्य स्रोत | अन्य स्रोतों से आय (नीचे दिए गए मदों का योग) | 48,209 | 48,209 |
| | | (i) बचत खाते से ब्याज | 7,224 | 7,224 |
| | | (ii) कोई अन्य | 40,985 | 40,985 |
| 04 | | कुल सकल आय [4= (1+2+3)] | 4,90,710 | 4,90,710 |
| 05 | अध्याय VIA के तहत कटौती | कटौती | | |
| | | 80C (जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि (a) में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचरों की सदस्यता के संबंध में कटौती) | 1,38,201 | 1,38,201 |
| | | (b) 80D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती) | 11,506 | 11,506 |
| | | (c) 80TTA (बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती) | 7,224 | 7,224 |
| | | अध्याय VI-A के तहत कुल कटौती (उम्र दिए गए मदों का योग) (जैसा कि रिटर्न में दावा की गई राशि तक ही सीमित है) | 1,56,931 | 1,56,931 |
| 06 | | कटौती के बाद कुल आय [6=(4-5)] | 3,33,780 | 3,33,780 |
| 07 | कर का विवरण | कुल आय पर देय कर | 4,189 | 4,189 |
| 08 | | धारा 87A के तहत छूट | 4,189 | 4,189 |
| 09 | | छूट के बाद देय कर [9=(7-8)] | 0 | 0 |
| 10 | | (9 पर) अधिभार | 0 | 0 |
| 11 | | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% की दर से (9+10) | 0 | 0 |
| 12 | | कर राहत से पहले सकल कर देयता (कुल कर और उपकर) [12=(9+10+11)] | 0 | 0 |
| 13 | | कर राहत | 0 | 0 |
| 14 | कुल आयकर देयता | 0 | 0 | |
| 15 | ब्याज और देय शुल्क | (a) धारा 234A के तहत ब्याज | 0 | 0 |

धारा 143(1) के तहत सूचना

नाम : मनीष कुमार तिवारी

स्थायी खाता संख्या : AGHPT7427K

निर्धारण वर्ष : 2021-22

पावती सं.

: 479454530271221

पत्र संदर्भ संख्या

: CPC/2122/A1/203430159

| क्र.सं. | विवरण | रिपोर्टिंग शीर्ष | राशि (₹ में) | |
|---------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | करदाता द्वारा प्रदान किया गया | धारा 143(1) की गणना के अनुसार |
| 16 | | (b) धारा 234B के तहत ब्याज | 0 | 0 |
| | | (c) धारा 234C के तहत ब्याज | 0 | 0 |
| | | (d) धारा 234F के तहत शुल्क | 0 | 0 |
| | | (e) कुल ब्याज और शुल्क देय [15e={15(a)+15(b)+15(c)+15(d)}] | 0 | 0 |
| | | कुल आयकर देय [16=(14+15e)] | 0 | 0 |
| 17 | पूर्व संदत्त कर | (a) अग्रिम कर | 0 | 0 |
| | | (b) टी डी एस | 1,463 | 1,463 |
| | | (c) टी सी एस | 0 | 0 |
| | | (d) स्वतः निर्धारित कर | 0 | 0 |
| | | (e) भुगतान किया गया कुल कर [17e = {17(a)+17(b)+17(c)+17(d)}] | 1,463 | 1,463 |
| 18 | प्रतिदाय | प्रतिदाय राशि [18=(17e-16)] | 1,460 | 1,463 |
| 19 | | करदाता को विलंब श्रेय (महीनों में) | N/A | 0 |
| 20 | | धारा 244A के तहत प्रतिदाय पर ब्याज (क्रम संख्या 19 पर विचार करने के बाद क्रम संख्या 18 के तहत प्रतिदाय राशि पर) | N/A | 63 |
| 21 | | कुल आयकर प्रतिदाय [21=(18+20)] | N/A | 1,526 |
| 22 | | धारा 220(2) के तहत कुल बकाया मांग और ब्याज, प्रतिदाय राशि की समायोजित सीमा तक देय है। | | 0 |
| 23 | प्रतिदाय योग्य कुल राशि [23=(21-22)] | | 1,530 | |

धारा 143(1) के तहत सूचना


नाम : मनीष कुमार तिवारी

स्थायी खाता संख्या : AGHPT7427K | निर्धारण वर्ष : 2021-22 | पावती सं. : 479454530271221 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2122/A1/203430159

प्रतिदाय नोट:

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244A के तहत ब्याज की गणना हेतु प्रतिदाय जारी करने की तारीख शामिल की जाती है।
2. इस सूचना में निर्धारित प्रतिदाय तथा धारा 244A के तहत ब्याज, धारा 245 के तहत बकाया राशि के समायोजन के अधीन है।
3. आयकर विभाग की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिदाय बैंक) द्वारा प्रतिदाय जारी किया जाता है। प्रतिदाय की स्थिति का विवरण वेबसाइट (www.tin-nsdl.com) पर "कर प्रतिदाय की स्थिति" के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिदाय की प्राप्ति में किसी भी कठिनाई या विलंब के मामले में, या प्रतिदाय की स्थिति जानने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉल सेंटर नंबर 18004259760 पर कॉल करें।
4. यदि इस सूचना के किसी भी भाग में सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत सुधार हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

To file a Rectification Request



Intimation u/s 143(1)

Name : MANISH KUMAR TIWARI
Address : 415 BELILIOUS ROAD 5TH FLOOR FLAT 5D HOWRAH, Howrah HOWRAH,
Howrah H.O West Bengal 711101 INDIA
Ph : 91-9831630210

नाम : मनीष कुमार तिवारी
पता : 415 बेलिलियोउस रोड 5ठ फ़्लोर फ़्लैट 5डी हावरा, हावरा हावरा,
हावरा एच.ओ वेंस्ट बंगाल 711101 इंडिया
फ़ोन : 91-9831630210

PAN : AGHPT7427K | AY : 2021-22 | Ack. No. : 479454530271221 | DIN : CPC/2122/A1/203430159

You have a Refund for A.Y. 2021-22

* Amount of Refund : ₹ 1,530

Refund Sequence No : 9114686768

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------|
| ITR Form Type | Date of Filing | Intimation Order Date | Due Date |
| ITR1 Original | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 31/12/2021 |
| Extended Due Date | Status | Residential status | |
| 31/12/2021 | Individual | Resident | |

RETURN DETAILS

| Sl.No. | Particulars | Reporting Heads | Amount in ₹ | |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | As provided by Taxpayer | As Computed u/s 143(1) |
| 01 | Taxation option | Opted for 115BAC | No | No |
| 02 | Income Details | Total Income | 3,33,780 | 3,33,780 |
| 03 | Tax Details | Tax Liability after relief | 0 | 0 |
| 04 | Interest and Fee Payable | Total Interest And Fee (234A, 234B, 234C & 234F) | 0 | 0 |
| 05 | Pre-paid Taxes | Total Taxes Paid (Advance Tax, TDS, TCS, Self Assessment Tax) | 1,463 | 1,463 |
| 06 | Refund Details | Refund Amount (Including 244A interest) | 1,460 | 1,530 |

* Note: Refund will be credited to your bank account within 15 days from the date of receipt of intimation. Kindly note that such credit is subject to your bank account being pre-validated and linked to your PAN.

Signature Not Verified
Digitally signed by
SAIRAJ N
Date: 2021.12.27 21:32:31 IST
Reason: Digitally Signed
Location: Bengaluru

N SAIRAJ

Asst. Director of Income Tax, CPC
Bengaluru

Intimation u/s 143(1)

Name : MANISH KUMAR TIWARI

PAN : AGHPT7427K

AY : 2021-22

Ack. No. : 479454530271221

DIN : CPC/2122/A1/203430159

| Sl.No. | Particulars | Reporting Heads | Amount in ₹ | |
|--------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | As provided by Taxpayer | As Computed u/s 143(1) |
| 01 | SALARY | (i) Gross salary (ia+ib+ic) | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (a) Salary as per section 17(1) | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (b) Value of perquisites as per section 17(2) | 0 | 0 |
| | | (c) Profits in lieu of salary as per sec 17(3) | 0 | 0 |
| | | (ii) Less : Allowances to the extent exempt u/s 10 | 0 | 0 |
| | | (iii) Net salary (i-ii) | 6,78,441 | 6,78,441 |
| | | (iv) Deduction u/s 16 (iva+ivb+ivc) | 52,120 | 52,120 |
| | | (a) Standard deduction u/s 16 (ia) | 50,000 | 50,000 |
| | | (b) Entertainment allowance u/s 16 (ii) | 0 | 0 |
| | | (c) Professional tax 16(iii) | 2,120 | 2,120 |
| | | (v) Income chargeable under the head 'Salaries' (iii-iv) | 6,26,321 | 6,26,321 |
| 02 | HOUSE PROPERTY | Type of House Property | Self Occupied | Self Occupied |
| | | (i) Gross rent received/receivable/lettable value during the year | 0 | 0 |
| | | (ii) Tax paid to local authorities | 0 | 0 |
| | | (iii) Annual value (i-ii) | 0 | 0 |
| | | (iv) 30% of annual value | 0 | 0 |
| | | (v) Interest payable on borrowed capital | 1,83,820 | 1,83,820 |
| | | (vi) Arrears/ Unrealized rent received during the Year Less 30% | 0 | 0 |
| | | (vii) Income chargeable under the head 'House Property' [(iii-iv-v)+vi] | -1,83,820 | -1,83,820 |
| 03 | OTHER SOURCES | Income from other sources (sum of the items below) | 48,209 | 48,209 |
| | | (i) Interest from Savings Account | 7,224 | 7,224 |
| | | (ii) Any Other | 40,985 | 40,985 |
| 04 | | Gross Total Income [4=(1+2+3)] | 4,90,710 | 4,90,710 |
| 05 | DEDUCTION UNDER CHAPTER VIA | Deductions (u/s) | | |
| | | (a) 80C (Deduction in respect of life insurance premia, deferred annuity, contributions to provident fund, subscription to certain equity shares or debentures, etc.) | 1,38,201 | 1,38,201 |
| | | (b) 80D (Deduction in respect of health insurance premia) | 11,506 | 11,506 |
| | | (c) 80TTA (Deduction in respect of interest on deposits in savings account) | 7,224 | 7,224 |
| | | Total deductions under chapter VI-A (sum of the items above) (As restricted to the amount claimed in the return) | 1,56,931 | 1,56,931 |
| 06 | | Total income after deductions [6=(4-5)] | 3,33,780 | 3,33,780 |
| 07 | TAX DETAILS | Tax payable on total income | 4,189 | 4,189 |
| | | Rebate u/s 87A | 4,189 | 4,189 |
| | | Tax payable after rebate [9=(7-8)] | 0 | 0 |
| | | Surcharge (on 9) | 0 | 0 |
| | | Health and education cess @4% on (9+10) | 0 | 0 |
| | | Gross tax liability before tax relief (total tax and cess) [12=(9+10+11)] | 0 | 0 |
| | | Relief u/s 89 | 0 | 0 |
| 13 | TAX RELIEF | Relief u/s 89 | 0 | 0 |
| 14 | TOTAL INCOME TAX LIABILITY | Balance tax after relief [14=(12-13)] | 0 | 0 |
| 15 | INTEREST AND FEE PAYABLE | (a) Interest u/s 234A | 0 | 0 |

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : MANISH KUMAR TIWARI


PAN : AGHPT7427K

AY : 2021-22

Ack. No. : 479454530271221

DIN : CPC/2122/A1/203430159

| Sl.No. | Particulars | Reporting Heads | Amount in ₹ | |
|--------|----------------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | As provided by Taxpayer | As Computed u/s 143(1) |
| | | (b) Interest u/s 234B | 0 | 0 |
| | | (c) Interest u/s 234C | 0 | 0 |
| | | (d) Fee u/s 234F | 0 | 0 |
| | | (e) Total interest and fee payable [15e={15(a)+15(b)+15(c)+15(d)}] | 0 | 0 |
| 16 | | Aggregate income tax liability [16=(14+15e)] | 0 | 0 |
| 17 | PRE-PAID TAXES | (a) Advance tax | 0 | 0 |
| | | (b) TDS | 1,463 | 1,463 |
| | | (c) TCS | 0 | 0 |
| | | (d) Self assessment tax | 0 | 0 |
| | | (e) Total tax paid [17e={17(a)+17(b)+17(c)+17(d)}] | 1,463 | 1,463 |
| 18 | REFUND | Refund Amount [18=(17e-16)] | 1,460 | 1,463 |
| 19 | | Delay attributable to taxpayer (in months) | N/A | 0 |
| 20 | | Interest u/s 244A on refund (on item 18 above after considering item 19) | N/A | 63 |
| 21 | | Total income tax refund [21=(18+20)] | N/A | 1,526 |
| 22 | | Total outstanding demand and interest payable u/s 220(2) to the extent adjusted with the refund amount. | | 0 |
| 23 | | Net Amount Refundable [23=(21-22)] | | 1,530 |



Intimation u/s 143(1)

Name : MANISH KUMAR TIWARI

PAN : AGHPT7427K

AY : 2021-22


Ack. No. : 479454530271221

DIN : CPC/2122/A1/203430159

Notes:

1. Interest u/s 244A of the Income Tax Act, 1961 is computed up to the date of issue of the refund.
2. The refund determined in this intimation, along with interest u/s 244A is subject to adjustment of arrear demand, if any, u/s 245.
3. The Refund is issued by the State Bank of India (Refund Banker) on behalf of the Income Tax Department. The details of the status of the Refund can be obtained from website (www.tin-nsdl.com) under "Status of Tax Refunds". In case of any difficulty or delay in the receipt of refund, kindly call the State Bank of India Call Center number 18004259760 to know the status of refund.
4. If you consider that any part of this intimation requires to be rectified, you may request for a rectification u/s 154 of the Income Tax Act 1961.

To file a Rectification Request



Log on to www.incometax.gov.in with your PAN Number and Password.

Click on 'Rectification' under 'Services' tab.